



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082024-256090
CG-DL-W-06082024-256090

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, जुलाई 28—अगस्त 3, 2024, शनिवार/ श्रावण 6—श्रावण 12, 1946
No. 16] NEW DELHI, JULY 28—AUGUST 3, 2024, SATURDAY/ SHRAVANA 6—SHRAVANA 12, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 42.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

1.	रक्षा लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, 1- करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
----	---

[फा. सं. 1(3)/2024-रक्षा (रा.भा.-1)]

मनीष त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2024

S.R.O. 42—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o Defence more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Controller of Defence Accounts, Regional Training Centre, 1-Cariappa Road, Lucknow Cantt.-226002
----	---

[F. No 1(3)/2024-D(OL-1)]

MANISH TRIPATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 43.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

1.	पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र पिन-900493 मार्फत 56 एपीओ
----	--

[फा. सं. 1(2)/2024-रक्षा (रा.भा. -1)]

अनिल कुमार छापोलिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2024

S.R.O. 43—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o Military Affairs more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Parachute Regiment Trg. Centre PIN 900493 c/o 56 APO
----	---

[F. No 1(2)/2024-D(OL-1)]

ANIL KUMAR CHHAPOLIA, Jt. Secy.

(वित्त प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2022, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2022, की अनुसूची में, -

(क) स्तम्भ (10) के खंड (iii) में "और स्नातक बहु कार्य कर्मचारीवृन्द" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) स्तम्भ (11), के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

“10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा उन स्नातक लिपिकों-सह-टंककों में से, जो लेखापरीक्षक के पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लिपिक-सह-टंकक संवर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और जिनकी धारित पद पर पुष्टि कर दी गई है।”

[फा. सं. एफ.9(1)/सी/2023]

वेद वीर आर्या, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण :- मूल नियम तारीख 10 जून, 2023 को भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 4 में, का.नि.आ. संख्यक 74 द्वारा तारीख 30 मई, 2023 को प्रकाशित किए गए थे।

(FINANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2024

S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2022, namely :-

1. Short title and Commencement .- (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule, -

(a) in column (10) in clause (iii), the words “and Graduate Multi Tasking Staff” shall be omitted ;

(b) in column (11), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :-

“ (ii) 10% by promotion from amongst Graduate Clerks-cum-Typists having a minimum of three years of service in the clerk-cum-typist cadre who have been confirmed in the post held, on passing the Departmental Examination by them for the post of Auditor.”.

[F. No. F. 9(1)/C/2023]

VED VEER ARYA, Jt. Secy. And Add. Financial Advisor

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India ,Part-II, section 4 dated 10th June, 2023 vide S.R.O. No. 74 dated 30th May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2024

का.नि.आ. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनों में पर्यवेक्षक, नेटवर्क प्रशासक, हार्डवेयर प्रशासक, लाईनमैन और नौका निर्माता के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, के अधीन स्थापन, तकनीकी पद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन.**- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. पर्यवेक्षक।	01* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवाएँ, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (र.29200-92300)।	लागू नहीं होता।
----------------	---	--	--	-----------------

सीधे भर्ती हेतु आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
<p>आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणः-आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चांबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>आवश्यकः</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या कंप्यूटर एप्लिकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) नेटवर्क तथा सर्वर प्रबंध में दो वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीयः</p> <p>(i) लाइनक्स वातावरण में कार्यरत हो;</p> <p>(ii) नेटवर्क तथा सर्वर प्रशासन में पूर्व अनुभव;</p> <p>(iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन का ज्ञान जैसे कि नेटवर्किंग, सुरक्षा, डाटा केन्द्र, क्लाउड, वर्चुएलाइजेशन, आई पी प्रौद्योगिकी, ध्वनि, विडिओ आदि;</p> <p>(iv) होस्ट सिक्यूरिटी का अनुभव;</p> <p>(v) निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का अच्छा अनुभव, लाइनक्स, वर्कस्टेशन, राउटर्स या स्विच, फायरवॉल प्रबंध, सिसूएडमिन, संपरीक्षा, नेटवर्क और सुरक्षा या नेटवर्क उपाबद्ध स्टोरेज; और</p> <p>(vi) पाइथन, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट प्री-प्रोसेसर, माई बुलेटिन बोर्ड, गुप ऑफिस, ऑन क्लाउड, मूडल, वर्चुअल मशीन वेयर, गेसोनायर लिब्री डी पेक इंफोरमेटिक का ज्ञान।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण:- केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी,- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।	लागू नहीं होता।
यदि विभागीय पुष्टीकरण समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(12)	(13)	
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. बिग्रेडियर - अध्यक्ष 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल - सदस्य 3. मेजर या कप्तान - सदस्य	लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. नेटवर्क प्रशासक।	04* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवाएँ, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (र.29200 - 92300)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)
आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा	आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित नेटवर्किंग में डिप्लोमा या कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक	लागू नहीं होता।

<p>सकती है।)</p> <p>टिप्पणः—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपूरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चांबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>डिग्री;</p> <p>(ii) सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसियट में प्रमाण-पत्र और सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसियट वृत्तिक हो; और</p> <p>(iii) नेटवर्क प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>वांछनीयः—</p> <p>(i) लाइनक्स वातावरण में काम करना;</p> <p>(ii) कोर वितरण का कॉन्फिगरेशन, रखरखाव और मॉनिटरी, सभी प्रकार के स्विचों पर पहुँच;</p> <p>(iii) नेटवर्क मॉनिटरी का प्रबंध; और</p> <p>(iv) सर्वर, नेटवर्क स्विच और राउटर का पूर्व अनुभव।</p>	
(9)	(10)	(11)
<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पणः— केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पणीः— पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी,—</p> <p>(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों धारण किए हों; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिग्रेडियर - अध्यक्ष 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल - सदस्य 3. मेजर या कप्तान - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हार्डवेयर प्रशासक।	04* (2024)	साधारण केन्द्रीय सेवाएँ,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (र.29200-92300)।	लागू नहीं होता।
	* कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग', अराजपत्रित,		

	परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीया।		
--	---------------------------	--------------	--	--

(6)	(7)	(8)
<p>आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणः-आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपूरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चांबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>आवश्यकः-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित कंप्यूटर हार्डवेयर का एडवांस डिप्लोमा या कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक डिग्री;</p> <p>(ii) बहुत बड़े स्तर पर एकीकरण का प्रमाणीकरण; और</p> <p>(iii) हार्डवेयर प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीयः-</p> <p>निजी कंप्यूटरों, सर्वर, प्रिंटर और कंप्यूटर सहायक उपकरणों के हार्डवेयर रखरखाव में पूर्व का अनुभव।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(9)	(10)	(11)
<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पणः- केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पणीः- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी,-</p> <p>(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

1. बिग्रेडियर	- अध्यक्ष	
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल	- सदस्य	
3. मेजर या कप्तान	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. लाईनमैन।	02* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवाएँ, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (र. 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)
<p>आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणः-आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपूरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चांबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>आवश्यक:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन प्रबंध में डिप्लोमा; और</p> <p>(iii) संबंधित कार्य क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>(i) स्पलिसिंग मशीन, ऑप्टिकल टाइम-डोमेन, रिफ्लेक्टोमीटर, स्लीव कटर, आदि के बारे में ज्ञान हो;</p> <p>(ii) स्पलिसिंग और जॉइंटिंग करने का ज्ञान और अनुभव।</p>	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पणः- केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पणः- पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी,-</p> <p>(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित</p>	लागू नहीं होता।

	आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।	
--	---	--

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. बिग्रेडियर - अध्यक्ष 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल - सदस्य 3. मेजर या कप्तान - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. नौका निर्माता।	01 * (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवाएँ, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (र.19900-63200)।	लागू नहीं होता।
(6)	(7)			(8)
आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणः -आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपूरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चांबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; तथा (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक सेक्टर उपक्रम शिपयार्ड या निजी शिपयार्ड या स्वतंत्र निजी लिमिटेड या पब्लिक कम्पनी से फाइबर ग्लास रि-इन्फोर्सड प्लास्टिक नौकाओं की मरम्मत में दो वर्ष का अनुभव। या (iii) प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा मान्यताप्राप्त अभिहित केन्द्रों पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और मैरिन फिटर ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र धारक हो; या (iv) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के शिपराइट या हल आर्टिफिशर ट्रेड के भूतपूर्व नौसैनिक।			लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पणः - केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणीः - पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय	लागू नहीं होता।

कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सरकार के अधीन अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी,- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।	
---	--	--

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. बिग्रेडियर - अध्यक्ष 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल - सदस्य 3. मेजर या कप्तान - सदस्य	लागू नहीं होता।

[एफ. सं. 16133/आर आर एस /जी पी 'ग' पद/डी एस एस सी/आई डी एस/कार्मिक/67/र.(नि.)/2024]

एं. पी. हरिनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2024

S.R.O. 45. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Supervisor, Network Administrator, Hardware Administrator, Lineman and Boat Builder in the Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, Technical Posts (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Supervisor.	01 * (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial,	Level - 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.

Age-limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential: (i) Bachelor degree in Engineering or Technology or Master degree in Computer Application or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institutes; and (ii) Two years experience in Network and Management of Servers. Desirable: (i) working in Linux Environment; (ii) previous experience with Network and Servers administration; (iii) knowledge of Information and Communication Technology solutions like networking, security, data center, cloud, virtualisation, IP technology, voice, video, etc; (iv) experience with host security; (v) good experience with the following technologies Linux, Workstation, Routers or Switches, Firewall Management, Sysadmin, Audit Network and Security or Network Attached Storage; and (vi) knowledge in Python, Hypertext Markup Language, Hypertext Pre-processor, My Bulletin Board, Group office, Own cloud, Moodle, Virtual Machine ware, Gestionnaire Libre de Parc Informatique.	Not applicable.
Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by	In case of recruitment by promotion or by

	deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Brigadier - Chairman; 2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. Major or Captain - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Network Administrator.	04 * (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam,	Essential: (i) 12 th class pass from a recognised Board with Diploma in Networking or Bachelor degree in Computer Application; (ii) certificate in Cisco Certified Network Associate and Cisco Certified Network Professional; and (iii) Two years of experience in Network administration.	Not applicable.

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Desirable: (i) working in Linux Environment; (ii) Configuration, maintenance and monitoring of Core distribution, access switches of all types; (iii) Management of Network Monitoring System; and (iv) previous experience with Server, Network switches and routers.	
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note. - There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Brigadier - Chairman; 2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. Major or Captain - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Hardware Administrator.	04 * (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	Essential: (i) 12 th class pass from a recognised Board with Advance Diploma in Computer Hardware or Bachelor degree in Computer Application; (ii) certification in Very Large Scale integration; and (iii) Two years of experience in Hardware administration. Desirable:	Not applicable.

Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Previous experience in hardware maintenance of Personal Computers, servers, printers and computer peripherals.	
--	--	--

(9)	(10)	(11)		
Two years for direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).			
(12)		(13)		
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Brigadier - Chairman; 2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. Major or Captain - Member.		Not applicable.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Lineman.	02 * (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <i>Note.-</i> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of	Essential: (i) 12 th class pass from a recognised Board; (ii) Diploma in Optical Fiber Cable Line Management; and (iii) Two years of experience in related field. Desirable: (i) knowledge about splicing machine, Optical Time-Domain Reflectometer, Sleeve cutter, etc. (ii) knowledge and experience of splicing and jointing.	Not applicable.

Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.		
--	--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Brigadier - Chairman; 2. Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. Major or Captain - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Boat Builder.	01 * (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the	Essential: (i) 12 th class pass from a recognised Board; and (ii) Two years of experience in repair of Fiberglass Reinforced Plastic boats with a public sector undertaking shipyard or private shipyard or an independent private limited or public company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013). or (iii) successfully completed apprenticeship training at designated centres recognised by the Directorate General of Training, New Delhi, and in possession of the National Apprenticeship Certificate in trade of marine fitter; or (iv) Ex-sailors of Indian Navy and Indian	Not applicable.

Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Coast Guard from the Shipwright or Hull Artificer trade.	
---	--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

(12)	(13)
Group 'C' Department Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Brigadier Chairman; 2. Colonel or Lieutenant Colonel 3. Major or Captain	Not applicable.

[F. No. 16133/RRs/Gp 'C' posts/DSSC/IDS/Pers/67/D(A)/2024]

M. P. HARINARAYANAN, Under Secy.